

BIHAR BOARD QUESTION PAPER

हिन्दी माध्यम / ENGLISH MEDIUM

INTERMEDIATE EXAMINATION - 2022

इंटरमीडिएट परीक्षा - 2022

(ANNUAL / वार्षिक)

ENTREPRENEURSHIP

समय: 3 घंटे 15 मिनट]

[पूर्णांक 70

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक (10 अंकों का) अवश्य लिखें।
2. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
3. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
4. प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।
5. यह प्रश्न पुस्तिका दो खण्डों में है- खण्ड-'अ' एवं खण्ड-'ब'।
6. खण्ड 'अ' में 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 35 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 35 का ही मूल्यांकन होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराये गए OMR उत्तर-पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले / काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के हवाइटनर / तरल पदार्थ / ब्लेड / नाखून आदि का OMR उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा।
7. खण्ड-ब में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इनके अतिरिक्त इस खण्ड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है।

8. किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।

SECTION-A

प्रश्न संख्या से 70 तक के प्रश्न के साथ चार विकल्प दिये गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर- पत्रक पर चिह्नित करें।

1. आधुनिकीकरण सुधारता है

- (a) उत्पादों को
- (b) उत्पादन को
- (c) प्रक्रियाओं को
- (d) क्षमता को

2. उत्पाद विकास प्रक्रिया में शामिल होते हैं

- (a) एक अवस्था
- (b) दो अवस्था
- (c) तीन अवस्था
- (d) चार अवस्था

3. उत्पादन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए

- (a) लम्बी
- (b) समय लेने वाली
- (c) जटिल
- (d) इनमें से सभी

4. उत्पाद चुनाव प्रभावित होता है

- (a) तकनीकी ज्ञान द्वारा
- (b) बाजार की उपलब्धता द्वारा
- (c) प्रतिस्पर्धा की स्थिति द्वारा
- (d) इनमें से सभी

5. गर्भावधि सम्बन्धित होती है।

- (a) विचार सृजन अवधि से
- (b) उद्भवन अवधि से
- (c) क्रियान्वयन अवधि से
- (d) वाणिज्यीकरण अवधि से

6. शुद्ध कार्यशील पूँजी का अर्थ है

- (a) चालू सम्पत्ति - चालू दायित्व
- (b) चालू सम्पत्तियाँ + चालू दायित्व
- (c) चालू दायित्व - चालू सम्पत्तियों
- (d) इनमें से कोई नहीं

7. दीर्घकालीन ऋण पर होता है

- (a) स्थिर ब्याज दर
- (b) परिवर्तनशील ब्याज दर
- (c) शून्य ब्याज दर

(d) इनमें से कोई नहीं

8. B.E.P. वह है जहाँ

(a) अधिकतम लाभ होता है

(b) निम्नतम लाभ होता है

(c) न लाभ होता है और न हानि

(d) इनमें से कोई नहीं

9. संचालन अनुपात आता है

(a) लाभदायकता अनुपात के अन्तर्गत

(b) क्रियाशीलता अनुपात के अन्तर्गत

(c) वित्तीय स्थिति अनुपात के अन्तर्गत

(d) उत्तोलक अनुपात के अन्तर्गत

10. सकल विनियोजित पूँजी बराबर होती है।

(a) कुल सम्पत्ति के

(b) शुद्ध सम्पत्ति के

(c) अंशधारी कोष के

(d) सकल लाभ के

11. लाभदायकता अनुपात सामान्यतया प्रदर्शित की जाती है।

(a) साधारण अनुपात में

(b) प्रतिशत में

(c) गुणा में

(d) इनमें से कोई नहीं

12. निम्नलिखित में से कौन-सा संचालन व्यय नहीं है ?

(a) विज्ञापन व्यय

(b) अपलिखित प्रारम्भिक व्यय

(c) मजदूरी

(d) किराया

13. तरलता परीक्षण का सबसे सख्त अनुपात है

(a) चालू अनुपात

(b) अम्ल परीक्षण अनुपात

(c) पूर्ण तीव्र अनुपात

(d) शोधन क्षमता अनुपात

14. जोखिम पूँजी शिलाधार स्थापित किया गया

(a) आई०एफ०सी०आई० द्वारा

(b) यू०टी०आई० द्वारा

(c) आई०डी०बी०आई० द्वारा

(d) आई०सी०आई०सी०आई० द्वारा

15. उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं

(a) उत्पाद निरीक्षण

(b) प्रक्रिया निरीक्षण

(c) निरीक्षण विश्लेषण

(d) इनमें से सभी

16. व्यक्तिगत विक्रय है

(a) मौखिक प्रस्तुति

(b) लिखित प्रस्तुति

(c) दृश्य प्रस्तुति

(d) इनमें से कोई नहीं

17. विज्ञापन विक्रय है

(a) एक व्यक्तिगत सम्प्रेषण प्रक्रिया

(b) एक गैर-व्यक्तिगत सम्प्रेषण प्रक्रिया

(c) एक लिखित सम्प्रेषण प्रक्रिया

(d) इनमें से कोई नहीं

18. अंश निर्गम एक स्रोत है

(a) अल्प-अवधि वित्त का

(b) मध्य अवधि वित्त का

(c) दीर्घकालिक विका

(d) इनमें से कोई नहीं

19. IFCL स्थापित की गई वर्ष

(a) 1939 में

(b) 1948 में

(c) 1950 में

(d) 1956 में

20. अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है

(a) स्थिर

(b) चल

(c) अर्धचल

(d) इनमें से कोई नहीं

21. IDBI किस वर्ष स्थापित की गई ?

(a) 1944

(b) 1954

(c) 1964

(d) 1974

22. व्यवसाय का नियामक ढाँचा सम्बन्धित होता है ?

(a) व्यवस्थापन से

(b) नियम बनाने से

(c) अधिनियम लागू करने से

(d) इनमें से सभी

23. प्रेरणाएँ सम्बन्धित नहीं होती

(a) छूट से

(b) कर से मुक्ति से

(c) बीज पूँजी का प्रावधान से

(d) एक मुश्त भुगतान से

24. बाजार मूल्यांकन के लिए आवश्यक है।

(a) माँग

(b) पूर्ति

(c) प्रतिस्पर्धा की प्रकृति

(d) इनमें से सभी

25. बाजार की माँग.....भी जाना जाता है।

(a) माँग की भविष्यवाणी

(b) वास्तविक माँग

(c) पूर्ति

(d) इनमें से कोई नहीं

26. व्यवसाय नियोजन का मुख्य महत्व है।

(a) दिशा-निर्देशन में

(b) निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने में

(c) उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में

(d) इनमें से सभी

27. एक अच्छी योजना होती है।

(a) खर्चीली

(b) समय लेने वाली

(c) लोचपूर्ण

(d) संकीर्ण

28. एक परियोजना है

(a) गतिविधियों का समूह

(b) एक गतिविधि

(c) असंख्य गतिविधियों का समूह

(d) इनमें से कोई नहीं

29. लाभ-हानि खाते के डेबिट आधिक्य को कहते हैं

(a) विशुद्ध लाभ

(b) विशुद्ध हानि

(c) सकल लाभ

(d) सकल हानि

30. प्रारम्भिक चरण में उत्पादन होता है।

(a) सीमित मात्रा में

(b) वृहद् मात्रा में

(c) असीमित मात्रा में

(d) इनमें से कोई नहीं

31. विकास की परिपक्व स्थिति में

(a) लाभ कम होता है

(b) लाभ में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है।

(c) लाभ स्थिर रहता है

(d) इनमें से सभी

32. फ्रेन्चाइजिंग के अन्तर्गत

(a) उत्पाद पर नियन्त्रण फ्रेन्चाइजर के पास रहता है

(b) उत्पाद पर नियन्त्रण फ्रेन्चाइजी के हाथ में रहता है

(c) (a) और (b) दोनों

(d) इनमें से कोई नहीं

33. सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया जाता है

(a) दो तरीकों में

(b) तीन तरीकों में

(c) चार तरीकों में

(d) पाँच तरीकों में

34. जब दोनों पक्षों द्वारा भूल से स्वीकृति की जाए, अनुबन्ध है

(a) व्यर्थ

(b) वैध

(c) व्यर्थनीय

(d) अवैधानिक

35. वैधानिक रूप से बिक्री अनुबन्ध में सम्मिलित है

(a) बिक्री

(b) विक्रय समझौता

(c) वस्तु-विनिमय

(d) (a) और (b) दोनों

36. बैंक साख एक स्रोत है।

(a) अल्प-अवधि वित्त का

(b) मध्यकालिन वित्त का

(c) दीर्घकालिक वित्त का

(d) इनमें से कोई नहीं

37. संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है

(a) लाभ वाले वर्ष में

(b) हानि वाले वर्ष में

(c) हर वर्ष लाभ हो या हानि

(d) इनमें से कोई नहीं

38. टेलीफोन व्यय है

(a) स्थायी

(b) चल

(c) अर्द्धचल

(d) इनमें से कोई

39. निम्न में से कौन-सा कारखाना उपरिव्यय नहीं है ?

(a) कारखाना बीमा

(b) प्लाण्ट पर हास

(c) कार्यालय वेतन ड्राइंग

(d) वेतन

40. चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है।

(a) पूँजी पर ब्याज

(b) सामग्री लागत

(c) धन कर

(d) किराया

41. स्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है, जब

(a) उत्पादन घटता है।

(b) उत्पादन बढ़ता है

(c) उत्पादन पूर्ववत् रहता है

(d) इनमें से कोई नहीं

42. वास्तविक खाते सम्बन्धित होते हैं

(a) सभी प्रकार की सम्पत्तियों से

(b) हानियों एवं लाभों से

(c) व्यक्ति से

(d) इनमें से कोई नहीं

43. कार्यशील पूँजी की प्रकृति क्या होती है ?

(a) स्थिर

(b) अस्थिर

(c) चल

(d) न (a) और न (b)

44. एकीकरण से अभिप्राय है

(a) आन्तरिक विस्तार

(b) बाह्य विस्तार

(c) आन्तरिक एवं बाह्य विस्तार

(d) इनमें से कोई नहीं

45. किसी देश के विकास की पहली आवश्यकता है

(a) भौतिक संसाधन की

(b) आर्थिक संसाधन की

(c) सक्षम प्रबन्धन की

(d) इनमें से कोई नहीं

46. ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

(a) संचालन

(b) मनोभाव

(c) पुनः भुगतान

(d) इनमें से सभी

47. उच्चस्तरीय प्रबन्ध में शामिल होता है

(a) संचालक मंडल

(b) मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(c) विपणन प्रबन्धक

(d) (a) और (b) दोनों

48. SFC अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया ?

(a) 1948 में

(b) 1954 में

(c) 1950 में

(d) 1951 में

49. भारत में विदेशी उद्यमियों को भूमिका है

(a) नकारात्मक

(b) सकारात्मक

(c) विनाशकारी

(d) इनमें से कोई नहीं

50. भावी वस्तुओं का विक्रय हेतु अनुबन्ध है।

(a) विक्रय

(b) विक्रय का समझौता

(c) व्यर्थ

(d) व्यर्थनीय

51. एक विनिमय विपत्र माँग पर धारक को देय है

(a) वैध

(b) व्यर्थनीय

(c) अवैध

(d) शर्त सहित

52. वह व्यक्ति जिसे विनिमय विपत्र की राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाए, जाना जाता है

(a) लेखक

(b) लेखांककी

(c) प्राप्तकर्ता

(d) ऋणदाता

**बिहार बोर्ड के नए और पुराने ऑफिसियल
क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर-की,
पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और
प्राैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...**

BiharboardQuestionpaper.com



53. प्रारंभिक रहतिया है

(a) कोष का स्रोत

(b) कोष का प्रयोग

(c) कोष का कोई प्रवाह नहीं

(d) इनमें से सभी

अभी विजिट करें..

54. बोनस नीति के निर्धारक हैं

(a) लाभ की मात्रा

(b) कम्पनी की आयु

(c) कोष की तरलता

(d) इनमें से सभी

55. अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि को शामिल करता है ?

(a) 12 माह

(b) 24 माह

(c) 18 माह

BiharboardQuestionpaper.com

(d) 36 माह

56. लाभान्श है

(a) शुद्ध लाभ

(b) लाभ का नियोजन

(c) संचय कोष

(d) अवितरित लाभ का अंश

57. अंश अधिमूल्य में वृद्धि है

(a) कोष का स्रोत

(b) कोष का प्रयोग

(c) कोष का प्रवाह नहीं

(d) इनमें से कोई नहीं

58. कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त 'कोष' शब्द का आशय है।

(a) केवल रोकड़

(b) चालू सम्पत्तियाँ

(c) चालू दायित्व

(d) चालू सम्पत्तियाँ का चालू दायित्व पर आधिक्य

59. निम्नलिखित में कौन गैर-चालू दायित्व है ?

(a) बन्धक ऋण

(b) बैंक अधिविकर्ष

(c) अदत्त वेतन

(d) पूर्वदत्त व्यय

60. चालू सम्पत्ति में शामिल होता है।

(a) उपस्कर

(b) विनियोग

(c) ख्याति

(d) देनदार

61. ऋणपत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय है

(a) कोष का प्रयोग

(b) कोष का स्रोत

(c) कोष का प्रवाह नहीं

62. अंशदान है

(a) बिक्री घटाव स्थिर लागत

(b) बिक्री घटाव परिवर्तनशील लागत

(c) बिक्री घटाव कुल लागत

(d) इनमें से कोई नहीं

63. सुरक्षा सीमा है।

(a) B.E.P. बिक्री घटाव वास्तविक विक्री

(b) वास्तविक विक्री घटाव B.E.P विक्री

(c) विक्री घटाव अंशान

(d) इनमें से कोई नहीं

64. साहसिक पूँजी उपलब्ध है

- (a) अत्यन्त जोखिमपूर्ण हेतु
- (b) तकनीकी इकाइयों हेतु
- (c) संस्थागत इकाइयों हेतु
- (d) इन सभी के लिए

65. औद्योगिक क्षेत्र है

- (a) व्यावसायिक स्थान
- (b) औद्योगिक स्थान
- (c) श्रम आवासीय नगरी
- (d) इनमें से कोई नहीं

66. औद्योगिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई ?

- (a) 1980
- (b) 1985
- (c) 1990
- (d) 1995

67. श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयुक्त है क्योंकि इसकी प्रकृति

- (a) स्थिर है
- (b) गतिशील है
- (c) (a) और (b) दोनों

(d) इनमें से कोई

68. वित्तीय प्रबन्ध के अन्तर्गत है

(a) लागत नियन्त्रण

(b) बजट नियन्त्रण

(c) प्रबन्धकीय खांकन

(d) इनमें से सभी

69. उत्पादन प्रबन्ध है

(a) उत्पादन नियोजन

(b) उत्पादन नियन्त्रण

(c) किस्म नियन्त्रण

(d) इनमें से सभी

70. उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है

(a) दो वर्गों में

(b) तीन वर्गों में

(c) चार वर्गों में

(d) छः वर्गों में

SECTION - B

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न संख्या से 20 तक लघु उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है।

1. अत्यधिक कार्यशील पूँजी के प्रभावों को बताइए।

2. क्या हास कोष का स्रोत है ?
3. विक्रय संवर्द्धन क्या है ?
4. वित्त की परिभाषा दीजिए।
5. उत्पाद रूपरेखा क्या है ?
6. किस्म नियन्त्रण क्या है ?
7. लाभ-लागत अनुपात क्या है ?
8. पुनर्भुगतान अवधि क्या है ?
9. निरीक्षण विश्लेषण क्या है ?
10. पैकेजिंग के लाभ बताइए ।
11. परियोजना नियोजन क्यों असफल होता है ?
12. PERT क्या है ?
13. एक अच्छे पूर्वानुमान विधि की कसौटियों की बताइए।
14. व्यवसाय नियोजन के परिभाषा दें ।
15. ऋण समता अनुपात के व्याख्या के लिए ।
16. चालू अनुपात के व्याख्या के लिए ।
17. प्रशासन से क्या आशय है ?
18. किस्म नियन्त्रण विधियों की चर्चा कीजिए।
19. व्यवसाय नीति क्या है ?
20. क्या प्रबंध को एक पेशा माना जाता है ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं।

21. ऐस किन्हीं छः तरीकों को बतायें जिनके आधार पर विचारों को परिवर्तित किया जा संकता है।
22. विभिन्न प्रकार के उत्पादन प्रौद्योगिकी को समझाइए।
23. प्रबन्ध की परिभाषा दीजिए। इसको मुख्य विशेषताएँ बताइए।
24. उत्पादन रूपरेखा क्या है ? इसके चरणों को समझाइए।
25. विक्रय संवर्द्धन के क्या उद्देश्य हैं ?
26. कुल लागत में किन-किन तत्वों का समावेश होता है?

BiharboardQuestionpaper.com

BIHAR BOARD QUESTION PAPER
INTERMEDIATE EXAMINATION - 2022

इंटरमीडिएट परीक्षा - 2022

(ANNUAL / वार्षिक)

ENTREPRENEURSHIP

Time: 3 Hours 15 Minutes]

[Full Marks: 70

Instructions for the candidates:

1. Candidate must enter his/her Question Booklet Serial No. (10 Digits) in the OMR Answer Sheet.
2. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
3. Figures in the right hand margin indicate full marks.
4. 15 minutes of extra time have been allotted for the candidates to read the questions carefully.
5. This question booklet is divided into two sections-Section-A and Section B.
6. In Section-A, there are 70 objective type questions, out of which any 35 questions are to be answered. If more than 35 questions are answered, then only first 35 will be evaluated. Each question carries 1 mark. For answering these darken the circle with blue/black ball pen against the correct option on OMR Answer Sheet provided to you. Do not use whitener /liquid/blade/nail etc. on OMR Answer Sheet, otherwise the result will be treated invalid.
7. In Section-B, there are 20 short answer type questions. Each carrying 2 marks, out of which any 10 questions are to be answered. Apart from these, there are 6 long answer type questions, each carrying 5 marks, out of which any 3 questions are to be answered.
8. Use of any electronic appliances is strictly prohibited.

SECTION-A (OBJECTIVE TYPE QUESTIONS)

Question Nos. 1 to 70 have four options, out of which only one is correct. Answer any 35 questions. You have to mark your selected option on the OMR-Sheet.

1. Modernisation improves.

- (a) Products
- (b) Production
- (c) Processes
- (d) capacity

2. product development process involves

- (a) One stage
- (b) Two stages
- (c) Three stages
- (d) Four stages

3. Production process should not be

- (a) Long
- (b) Time consuming
- (c) Complicated
- (d) All of these

4. Product selection is affected by

- (a) Technical knowledge
- (b) Availability of market
- (c) Position of competition
- (d) All of these

5. Gestation period is concerned with

- (a) idea creation period
- (b) Incubation period
- (c) Implementation period
- (d) Commercialisation period

6. Net working capital means

- (a) C.A. - C.L.
- (b) C.A. + C.L.
- (c) C.L. - C.A.
- (d) none of these

7. Long-term loan bears

- (a) Fixed rate of interest
- (b) Flexible rate of interest
- (c) Zero rate of interest
- (d) None of these

8. B.E.P. is that where

- (a) there is maximum profit
- (b) there is minimum profit
- (c) there is neither profit nor loss
- (d) none of these

9. Operating Ratio comes under

- (a) Profitability Ratio
- (b) Activity Ratio
- (c) Financial Position Ratio
- (d) Leverage Ratio

10. Gross capital employed is equal to

- (a) Total Assets
- (b) Net Assets
- (c) Shareholder's fund
- (d) Gross Profit

11. Profitability Ratio is generally shown in

- (a) Simple Ratio
- (b) Percentage
- (c) Times
- (d) None of these

12. Which of the following is not an operating expense?

- (a) Advertising expenses
- (b) Written-off preliminary expenses
- (c) Wages
- (d) Rent

13. The most rigorous test of liquidity is

- (a) Current Ratio
- (b) Acid Test Ratio
- (c) Absolute Quick Ratio
- (d) Solvency Ratio

14. Risk capital foundation was established by

- (a) IFCI
- (b) UTI
- (c) IDBI
- (d) ICICI

15. The important aspects of product inspections are

- (a) Product inspection
- (b) Process inspection
- (c) Inspection analysis
- (d) All of these

16. Personal selling is

- (a) Verbal presentation
- (b) Written presentation
- (c) Visual presentation
- (d) None of these

17. Advertisement sales is

- (a) a personal communication process
- (b) a non-personal communication process
- (c) a written communication process
- (d) none of these

18. Issue of shares is a source of

- (a) short-term finance
- (b) medium-term finance
- (c) long-term finance
- (d) none of these

19. IFCI was established in the year

- (a) 1939
- (b) 1948
- (c) 1950
- (d) 1956

20. Rate of dividend on preference shares is

- (a) Fixed
- (b) Variable
- (c) Semi-variable
- (d) None of these

बिहार बोर्ड के नए और पुराने ऑफिसियल
क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर-की,
पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और
प्राैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...

BiharboardQuestionpaper.com 

अभी विजिट करें ..

21. In which year IDBI was established ?

- (a) 1944
- (b) 1954
- (c) 1964
- (d) 1974

22. Regulatory framework of business is concerned with

- (a) Regulation
- (b) Formulation of Rules
- (c) Enactment of Acts
- (d) All of these

23. Incentives are not concerned with

- (a) Rebate
- (b) Exemption from tax
- (c) Provision of seed capital
- (d) Lump-sum payment

24. Which of the following things are necessary for market assessment?

- (a) Demand
- (b) Supply
- (c) Nature of competition
- (d) All of these

25. Market demand is also known as

- (a) Demand forecasting
- (b) Real demand
- (c) Supply
- (d) None of these

26. The main importance of business planning is

- (a) in providing guidelines
- (b) in attracting Investors
- (c) in providing leverage
- (d) all of these

27. A good plan is

- (a) Expensive
- (b) Time consuming
- (c) Flexible
- (d) Rigid

28. A project is a

- (a) Cluster of activities
- (b) Single activity
- (c) Group of innumerable activities
- (d) None of these

29. Debit balance of profit and loss account is called

- (a) Net profit
- (b) Net loss
- (c) Gross profit
- (d) Gross loss

30. Production in the start-up stage is in

- (a) Limited quantity
- (b) Large quantity
- (c) Unlimited quantity
- (d) None of these

31. In the maturity stage of development

- (a) Profit is low
- (b) Profit has an increasing trend
- (c) Profit remains constant
- (d) All of these

32. Under Franchise system

- (a) Control on production remains with the franchiser
- (b) Control on production remains with the franchisee
- (c) both (a) and (b)
- (d) None of these

33. Generally, diversification is classified into

- (a) two types
- (b) three types
- (c) four types
- (d) five types

34. When the consent of both the parties is given by mistake, the contract is

- (a) Void
- (b) Valid
- (c) Voidable
- (d) Illegal

35. Legally, a contract of sale includes

- (a) Sale
- (b) Agreement to sale
- (c) Barter system
- (d) Both (a) and (b)

36. Bank credit is a source of

- (a) Short-term finance
- (b) Medium-term finance
- (c) Long-term finance
- (d) None of these

53. Opening stock is

- (a) Sources of fund
- (b) Application of fund
- (c) No flow of fund
- (d) All of these

54. The determinant of bonus policy is

- (a) Amount of profits
- (b) Age of company
- (c) Liquidity of funds
- (d) All of these

55. Short-term forecast involves a period of how many months?

- (a) 12 months
- (b) 24 months
- (c) 18 months
- (d) 36 months

56. Dividend is

- (a) Net profit
- (b) Appropriation of profit
- (c) Reserve fund
- (d) Part of undistributed profit

57. Increase in share premium is

- (a) Sources of fund
- (b) Application of fund
- (c) No flow of fund
- (d) None of these

58. The term 'fund' as used in fund flow Analysis means

- (a) Cash only
- (b) Current assets
- (c) Current liabilities
- (d) Excess of current assets over current liabilities

59. Which of the following is a non-current liability?

- (a) Mortgage loan
- (b) Bank overdraft
- (c) Outstanding salaries
- (d) Prepaid expenses

60. Current assets include

- (a) Furniture
- (b) Investment
- (c) Goodwill
- (d) Debtors

61. Purchase of goodwill by issuing Debenture is

- (a) Application of fund
- (b) Sources of fund
- (c) No flow of fund
- (d) None of these

62. Contribution is

- (a) Sales less fixed cost
- (b) Sales less variable cost
- (c) Sales less total cost
- (d) None of these

63. Margin of safety is

- (a) B.E.P. sales less actual sales
- (b) Actual sales less B.E.P sales
- (c) Sales less contribution
- (d) None of these

64. Venture capital is available for

- (a) Extremely risky units
- (b) Technical units
- (c) Institutional units
- (d) All of these

65. Industrial estate is

- (a) Commercial place
- (b) Industrial place
- (c) Labour residential locality
- (d) None of these

66. When was Industrial Development Plan started?

- (a) 1980
- (b) 1985
- (c) 1990
- (d) 1995

67. Labour-intensive technology is suitable because its nature is

- (a) Static
- (b) Dynamic
- (c) both (a) and (b)
- (d) none of these

68. Financial Management includes

- (a) Cost control
- (b) Budget control
- (c) Managerial accounting
- (d) All of these

69. Production Management is

- (a) Production planning
- (b) Production control
- (c) Quality control
- (d) All of these

70. The process of production design is divided into

- (a) Two categories
- (b) Three categories
- (c) Four categories
- (d) Six categories

SECTION-B (NON-OBJECTIVE TYPE QUESTIONS)

Question Nos. 1 to 20 are Short Answer Type. Answer any 10 questions. Each questions carries 2 marks. <https://www.bsebstudy.com>

1. State the effects of excessive working capital.
2. Is Depreciation a source of fund?

3. What is sales promotion?
4. Define finance.
5. What is product design?
6. What is quality control?
7. What is benefit-cost ratio?
8. What is Pay-back period?
9. What is inspection analysis?
10. Mention the advantages of Packaging.
11. Why do Project Plans fail?
12. What is PERT?
13. State the criteria of a good forecasting.
14. Define Business Plan.
15. Discuss the Debt-Equity Ratio.
16. Discuss Current Ratio.
17. What is meant by administration?
18. Discuss the methods of quality control.
19. What is a business policy?
20. Is management known as a profession?

Question Nos. 21 to 26 are Long Answer Type. Answer any 2 questions. Each question carries 5 marks.

21. Explain any six ways in which ideas can be changed.
22. Discuss the different types of production technologies.
23. Define management. Discuss its main characteristics.
24. What is production Design? Discuss its phases.
25. What are the objectives of sales promotion?
26. What are the various elements included in total cost?

बिहार बोर्ड के नए और पुराने ऑफिसियल
क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, आंसर-की,
पाठ्यक्रम, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेंट-अप और
प्राैक्टिकल परीक्षा प्रश्न पत्र आदि के लिए...

BiharboardQuestionpaper.com 🔍

अभी विजिट करें ..